

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 179]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 मई 2019 — वैशाख 18, शक 1941

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 8 मई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-4/2019/1-7. — दिनांक 09-04-2019 को माननीय श्री भीमा मंडावी, विधायक, दंतेवाड़ा के चुनाव प्रचार काफिला पर जिला दंतेवाड़ा के अंतर्गत श्यामगिरी मार्ग के मध्य क्रिकेट ग्राउण्ड के पास नक्सलियों द्वारा किये गये बारूदी सुरंग विस्फोट से माननीय विधायक श्री भीमा मंडावी तथा अन्य चार सुरक्षा कर्मियों की घटना स्थल पर मृत्यु की जानकारी संज्ञान में आई है.

2. उक्त घटना के लोक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन एतद्वारा जांच आयोग अधिनियम (1952 की संख्या 60) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त घटना की जांच हेतु एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित करता है. आयोग के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस श्री सतीश के. अग्निहोत्री, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधिपति, सिक्किम उच्च न्यायालय को नियुक्त किया जाता है.

3. उक्त जांच आयोग द्वारा जांच के बिंदु निम्नानुसार होंगे, अर्थात:-

1. दिनांक 09-04-2019 को जिला दंतेवाड़ा में श्यामगिरी मार्ग के मध्य क्रिकेट ग्राउण्ड के पास किन परिस्थितियों में घटना घटित हुई ?
2. क्या घटना को घटित होने से रोका जा सकता था ?
3. क्या सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त थी ? अथवा सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक हुई ?
4. क्या सुरक्षा के लिए सभी निर्धारित प्रक्रियाओं एवं व्यवस्थाओं का पालन सुरक्षा तंत्रों द्वारा किया गया था ?
5. घटना के पूर्व, घटना के दौरान या घटना के उपरांत ऐसे अन्य मुद्दे जो घटना से संबंधित हों, उस बाबत तथ्यात्मक प्रतिवेदन.
6. क्या घटना किसी षडयंत्र के तहत हुई है ? यदि हों तो षडयंत्र में शामिल व्यक्ति कौन थे ?
7. भविष्य में इस प्रकार की घटना से बचने के लिए सुरक्षा एवं प्रशासकीय कदम उठाये जाने के संबंध में सुझाव तथा उपाय.
8. अन्य ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दु जो घटना से संबंधित हों.

4. इस अधिसूचना के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन की तारीख से 03 माह के भीतर आयोग अपनी जांच पूरी करेगा तथा शासन को रिपोर्ट सौंपेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, सचिव.